1st June, 2025

To The General Manager, Department of Corporate Services, **BSE Limited,** Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai – 400001

Scrip Code – 538860

ISIN - INE655P01029

Sub.: <u>Newspaper clippings of the Audited Financial Results for the fourth quarter and financial</u> <u>year ended on 31st March, 2025</u>

Ref.: Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sir/Madam,

With respect to the captioned subject, please find enclosed herewith newspaper clippings of the Audited Financial Results for the fourth quarter and financial year ended on 31st March, 2025, published by the Company in the following newspapers:

- 1. Financial Express (English) dated 1st June, 2025
- 2. Jansatta (Hindi) dated 1st June, 2025

These clippings will also be available on the Company's website at www.panaficindustrialsltd.in

This is for your information and records.

Thanking You,

Yours faithfully,

For PANAFIC INDUSTRIALS LIMITED

Sd/-Sarita Gupta Managing Director DIN:00113099 R/o.:D-158, Pushpanjali Enclave, Pitampura, Saraswati Vihar, Delhi-110034

Enclosed - As above

32

TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LIMITED Regd. Office: 11th Floor, Tower A, Peninsula Business Park, Ganpatrao TATA Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai-400013 CIN No. U67190MH2008PLC187552 POSSESSION NOTICE (FOR IMMOVABLE PROPERTY) (As per Appendix IV read with Rule 8(1) of the Security Interest Enforcement Rules, 2002)

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the TATA Capital Housing Finance Limited, under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued a demand notices as mentioned below calling upon the Borrowers to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of the said notice.

The borrower, having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower, in particular and the public, in general, that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the said Rules.

The borrower, in particular, and the public in general, are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the TATA Capital Housing Finance Limited, for an amount referred to below along with interest thereon and penal interest, charges, costs etc. from date mentioned below.

Loan Name of Obligor(s) Account /Legal Heir(s)/ No. Legal Representative(s)		Amount & Date of Demand Notice	Possession Date
TCHHL03510 00100105903, TCHIN03590 00100108181, TCHIN03990 00100195359	Mr. Mohd. Hasnain (as Borrower) and Mr. Nazim, Ms. Shabila and Ms. Tabbsum (as Co Borrower)	Rs. 28,78,784/- (Rupees Twenty Eight Lakh Seventy Eight Thousand Seven Hundred Eighty Four Only) as on 06/02/2024	29.05.2025

Description Of Secured Assets/immovable Properties:- All piece & parcels of Residential MIG Flat bearing No. U.G. 01 (without Roof Rights), Upper Ground Floor, Having Total Covered Area Admeasuring 600 Sq. Ft. i.e. 55.74 Sq. Mtrs., Situated at Plot No. C-1/72, D.L.F. Dilshad Extension - II, Village Brahampura or Bhopura, Pargana Loni, Tehsil & District Ghaziabad - 201005 (Uttar Pradesh), with all common amenities mentioned in Sale Deed. Boundaries: - East:- Plot No. C-1/73 West:- Plot No C-1/71 North:- Park South:- Boad 30' Wide

DATE :-	01-06-2025	Sd/- AUTHORISED OFFICER,
PLACE:-	Ghaziabad, Delhi & NCR	FOR TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LIMITED



Regd. Office :- 19-A, Dhuleswar Garden, Ajmer Road, Jaipur-302001, (CIN : L36911RJ1996PLC011381)

APPENDIX IV [SEE RULE 8(I) POSSESSION NOTICE]

Whereas, The undersigned being the Authorized Officer of the AU Small Finance Bank Limited A Scheduled Commercial Bank under the "Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002' and in exercise of Powers conferred under Section 13 read with the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued demand notice dated 18/03/2025 vide Ref. No.: CB/SAR/13-2/BB/MAR-2025/06 Loan Account Nos. 2121210233847405 & 2121210233847415 calling upon the Borrower/Guarantors /Mortgagors M/S. SUNRISE TEXTILE THROUGH IT'S PROPRIETOR/KARTA MR. ASHOK KUMAR JAIN (HUF) (Borrower), MR. ASHOK KUMAR JAIN S/O MR. RAMESHWAR DASS JAIN (Guarantor), MRS. RAJ BALA JAIN W/O MR. ASHOK KUMAR JAIN Guarantor/Mortgagor), MR. VISHAL JAIN S/O MR. ASHOK KUMAR JAIN (Guarantor), MRS. YOJNA JAIN W/O MR. VISHAL JAIN (Guarantor) to repay the amount mentioned in the notice being is for loan Account No. 2121210233847405 Rs. 74,54,993/- (Rupees Seventy-Four Lakh Fifty-Four Thousand Nine Hundred and Ninety-Three Only) and Ioan account no. 2121210233847415 Rs. 43,22,384/-(Rupees Forty-Three Lakh Twenty-Two Thousand three hundred Eighty-Four only) Total Amount is Rs. 1,17,77,377/- (Rupees One Crore Seventeen Lakh Seventy-Seven Thousand Three Hundred Seventy Seven Only) as on 17 March 2025 aggregating total due (which includes principal, interest, penalties and all other charges) with further interest and charges until payment in full within 60 days from the date of notice/date of receipt of the said notice.



Government of India, Ministry of Finance, (Department of Financial Services) 2nd Floor, Paras Tower, Mazra, Saharanpur Road, Dehradun, UK. 248171 PUBLICATION NOTICE IN O.A. No. 539 OF 2024 SUMMONS UNDER SUB-SECTION (4) OF SECTION 19 OF THE RECOVERY OF DEBTS AND

BANKRUPTCY ACT, 1993, READ WITH SUB-RULE (2A) OF RULE 5 OF THE DEBT RECOVERY TRIBUNAL (PROCEDURE) RULES, 1993 AS AMENDED FROM TIME TO TIME Dy. No. 438/2025 Dated: 19.05.2025 Bank of Baroda V/s M/s Paras Trading Company & Anr.

M/s Paras Trading Company, Proprietorship concern at 207/28, Krishnapuri Muzaffarnagar, Distt. Muzaffarnagar (U.P.)

Sh. Rajeev Jain S/o Sh. Ashok Kumar Jain Prop. M/s Paras Trading Company R/o 206/1, Prempuri, Muzaffarnagar, Distt. Muzaffarnagar (U.P.)

Whereas the above named Applicant Bank has instituted OA No. 539 of 2024 against you for recovery of debts of Rs. 52,77,742.22/- in which Hon'ble Tribunal was pleased to issue Summons/Notice U/s 19(4) of the Recovery of Debts and Bankruptcy Act, 1993 and was listed before the Hon'ble Presiding Officer on 08.05.2025.

Whereas, it has been shown to the satisfaction of the Tribunal that it is not possible to serve you in ordinary way. Therefore, this notice is given by way of this publication directing you to appear in person or through your duly authorized agent or legal practitioner before the Tribunal on 09.07.2025 at 10:30 A.M. Further, you are required to show cause as to why the relief(s) prayed for in OA should not be granted and to file reply, if any, in your defence in a paper book form in sets and produce all the documents and affidavits under which your defence or claim for set off, counter claim, in this Tribunal personally or through your duly authorized agent or legal practitioner within 30 days from the date of the publication of this notice.

Take notice that in case of default of your appearance on the specified day and time before the Tribunal, the case shall be heard and decided in your absence. Given under my hand and seal of this Tribunal on this the 19th day of May, 2025. By order of Tribunal





Proprietor, Mr. Pawan Singh; Mrs. Niti Singh to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 1,60,65,129.64/- (Rupees One Crore Sixty Lakh Sixty-Five Thousand One Hundred Twenty-Nine and Sixty-Four Paise Only) within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers

and the public in general that the undersigned has taken Symbolic Possession of the property described herein below in exercise of the powers conferred on him/her under Section 13(4) of the said act read with rule 8 the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on this 31st day of May of the year 2025.

The borrowers in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Aditya Birla Capital Limited for an amount 1,60,65,129.64/- (Rupees One Crore Sixty Lakh Sixty-Five Thousand One Hundred Twenty-Nine and Sixty-Four Paise Only) and interest thereon. The borrowers attention is invited to the provisions of sub-section 8 of Section 13 of the act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

Regional Office-केनरा बैंक Canara Bank 🛷

POSSESSION NOTICE Civil Lines, Moradabad Under Section 13 (2) [Under Rule 8(1) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002]

Whereas

The undersigned being the Authorised officer of the CANARA BANK, under Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (Act No. 54 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule-3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued demand notice on the date mentioned against account and stated herein calling upon them to repay the amount within 60 days from the date of receipt of said notice.

The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower/guarantor and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under section 13(4) of the said Act read with rule 8 & 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, The borrower/gurantor in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the CANARA BANK. for the amounts and interest thereon. The borrowers attentions is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the act, in respect of time available to redeem the secured asset Details of property where possession had been taken is as follows:

Sr. No-	Name of the Borrower/ Guarantor & Branch Name	Description of the Immovable Property	Outstanding Amount	Date of Demand Notice Date of Possession	
1	(Borrower) Branch: Gulab Bari	All that part and parcel of the property consisting of A Single Storeyed Residential Building 27.19 Sq.mt. Bearing Gata No 510/01 Situated at village Bhadora Teshsil and District Moradabad (UP), Bounded as: East: House of Smt Seema Begam West: House of Furkan North: 4ft wide Road South: House of Guddu, one manjil	+ int. &	29.05.2024 30.05.2025	
D	ated: 31.05.2025	Place: Moradabad A	uthorized Offic	er, Canara Bank	

PANAFIC INDUSTRIALS LIMITED

Regd. Office: 23, IInd Floor, North West Avenue, Club Road, West Punjabi Bagh, New Delhi-110026

CIN: L45202DL1985PLC019746

Website: www.panaficindustrialsltd.com E-mail: panafic.industrials@gmail.com Tel: 011-25223461

STANDALONE AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED ON MARCH 31, 2025

(In Lakhs)

Particulars		Quarter end	ed	Year e	Year ended	
	31-Mar-25	31-Mar-24	31-Dec-24	31-Mar-25	31-Mar-24	
	Audited	Audited	Unaudited	Audited	Audited	
Total income from operation (Net)	24.72	19.18	13.34	65.87	67.89	
Net Profit/(Loss)from ordinary activities before tax (before exceptional items)	(1.53)	(3.43)	7.15	4.17	2.97	
Net Profit/(Loss)from ordinary activities before tax (after exceptional items)	(1.53)	(3.43)	7.15	4.17	2.97	
Net Profit/(Loss)from ordinary activities after tax (after exceptional items)	(1.53)	(3.43)	7.15	2.84	2.15	
TOTAL COMPREHENSIVE INCOME AFTER TAXES AND NON CONTROLLING INTEREST	(1.53)	(3.43)	7.15	2.84	2.15	
Paid up Equity Share Capital	821.25	821.25	821.25	821.25	821.25	
Reserves excluding Revaluation Reserve as per Balance Sheet of previous accounting year	-		-	-	ſ.	
Earnings per share (from continuing and discontinuing operations)			1			
Basic	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	
Diluted	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	

The above results has been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their meeting held on 30th May, 2025.

The above financial results are prepared in accordance with the Indian Accounting Standards ("Ind AS") as prescribed under Section 133 of the Companies 2. Act, 2013 ("the Act") read with relevant rules issued thereunder and in terms of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

The borrower/mortgagor having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower/ mortgagor and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said Rules on this 30th day of May of the year 2025.

"The borrower's attention is invited to provisions of sub section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured assets"

The borrower/Guarantor/mortgagors in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the AU Small Finance Bank Limited for an amount of for loan Account No. 2121210233847405 Rs. 73,86,127/- (Rupees Seventy-Three Lakh Eighty-Six Thousand One Hundred and Twenty-Seven Only) and Ioan account no. 2121210233847415 Rs. 42,57,038/- (Rupees Forty-Two Lakh Fifty-Seven Thousand Thirty Eighty only) Total Amount is Rs. 1,16,43,165/- (Rupees One Crore Sixteen Lakh Forty-Three Thousand One Hundred Sixty-Five Only) as on 28 May 2025 and further interest & expenses thereon until full payment

DESCRIPTION OF IMMOVABLE PROPERTIES

850 Sq. Ft. on The Ground Floor Layout Plan of The Goodwill Co-O	tial Property, Flat No. 66, Having Area Admeasuring • of the Building, Known as Goodwill Apartments, perative Group Housing Society Limited, Situated at i, Delhi. Owned by Mrs. Raj Bala Jain.
East:Road/Open	West: Others Flat
North: Entry & Flat No. 65	South: Road/Open
	-Sd-
Date : 30.May.2025	Authorised Officer
Place : Delhi	Au Small Finance Bank Limited

OFFICE OF THE RECOVERY OFFICER	-1
DEBTS RECOVERY TRIBUNAL DEHRAD	UN
Paras Tower, 2nd Floor, Majra Niranjanpur, Saharanpur Roa	
NOTICE FOR SETTLING A SALE PROCLAMATION UNDER RULE 5	
SCHEDULE TO THE INCOME TAX ACT, 1961 READ WITH THE REC	
BANKRUPTCY ACT, 1993	
RC/328/2018	02.05.2025
BANK OF BARODA Versus RAMA AGRO & FOOD PROD	UCT & ORS
To,	
CD.1: M/s Rama Agro & Food Products, A partnership Firm having	its principal place of
business at Village Raja Rampur Pratap, Post Muzzampur Nara	in, District Bijnor U.P.
through any of its partner or person in management and control of bus	
CD.2: Baliram alias Vinod Kumar S/o Sh. Lala Dhani Ram, R/o Rama	House, Station Road,
Kiratpur, Distt. Bijnor, U.P246731 (since deceased)	
CD.3: Anurag Goel S/o Sh. Bali Ram alias Vinod Kumar, R/o Rama	House, Station Road,
Kiratpur, Distt. Bijnor, U.P246731 and legal heir of CD No. 2 also.	Usuas Otation Daad
CD.4: Ankit Goel S/o Sh. Bali Ram alias Vinod Kumar, R/o Rama I	House, Station Road,
Kiratpur, Distt. Bijnor, U.P246731 and legal heir of CD No. 2 also. CD.5: Smt. Kusumlata W/o Sh. Bali Ram alias Vinod Kumar, R/o Rama	House Station Pood
Kiratpur, Distt. Bijnor, U.P246731 and legal heir of CD No. 2 also.	nouse, station Roau,
CD.6: Smt. Shubha Goel W/o Late Sh. Vipin Kumar Goel, R/o Rama	House, Station Road
Kiratpur, Distt. Bijnor, U.P246731 (Heir and Legal represer	
guarantor Late Vipin Kumar Goel),	
CD.7: Divyanshu Goel S/o Late Sh. Vipin Kumar Goel, R/o Rama I	House, Station Road,
Kiratpur, Distt. Bijnor, U.P246731 (Heir and Legal represer	
guarantor Late Vipin Kumar Goel).	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

CD.8: Aniruddh Goel S/o Late Sh. Vipin Kumar Goel, R/o Rama House, Station Road, Kiratpur, Distt. Bijnor, U.P.-246731 (Heir and Legal representative of deceased guarantor Late Vipin Kumar Goel).

CD.9: Sri Durga Khandsari Udyog, through its proprietor Baliram alias Vinod Kumar, having its principal place of business at Village Raja Rampur Pratap, Post Muzzampu

Description of the Immovable Property

All that piece and parcel of : "Plot No. 7, Khewat/Khata No. 185/189, Area 1 Kanal 12 Marle out of Khasra No. 22/7, Khewat/Khata No. 184/188, Area 1 Kanal 14 Marle Out of Khasra No. 22//17/1/1, 24/2, Total Area 3 Kanal 6 Marle, located at Mauja Samaypur, Tehsil: Ballabhgarh Distt: Faridabad, Haryana Owned by Pawan Singh and bounded as follows that is to say: North: Property of Tarun RanaEast: Other Property, South: Rasta 33", West: Property of Pawan Singh. together with easements attached thereto and together with all other buildings and structures standing and to be constructed thereon and all fittings, fixtures, plant and machinery attached to the earth or permanently fastened to anything attached to the earth, both present and future." (hereinafter collectively referred to as "Secured Asset/s)

DATE : 31/05/2025 , PLACE : Faridabad Authorised Officer, (Aditya Birla Capital Limited)

Sr. No		Quarter Ended 31.03.2025 (Audited)	Quarter Ended 31.12.2024 (Unaudited)	Ended 31.03.2024 (Audited)	Year Ended 31.03.2025 (Audited)	(Audited)
1) 2)	Total Income from operations Net Profit/(loss) for the period (before tax and exceptional items)	7,136.66	6.111.92	5,510.25 9.11	24,701.52 904.48	226.10
3)	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after exceptional items)	(36.19)	302.37	9.11	904,48	226.10
4)	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after exceptional items)	(19.19)	226.27	83,48	653.58	147.78
5)	Total Comprehensive Income for the period (comprising Profit/(loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	(19.19)	226.27	83.48	653.58	147.78
6)	Equity Share Capital	95.67	95.67	95.67	95.67	95.67
7)	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the audited Balance Sheet of the Previous year	88			5	8
8)	Earnings per share (of Rs. 1/-each) not annualised for quarterly figures); a) Basic (Rs.) b) Diluted (Rs.)	(0.20) (0.20)	2.37	0.87	6.83	1,54 1,54
2)	The above is an extract of the detailed under Regulation 33 of the SEBI (Lis 2015 The full format of the Annua website i.e www.bseindia.com and The Standalone financial results o Indian Accounting Standards(Ind AS) Rules, 2015 as amended by the C Rules, 2016. The Company has add tst April, 2015 and accordingly thes presented in accordance with Ind A	ting Obligat I Financial on the Co f the Gom notified un companies, opted Ind A e results (ii	tions and Disc Results are mpany's web pany have bi der the Compa (Indian Acci \S from 1st A ncluding for p	losure Requ available o site i.e www een prepar mies (Indiar ounting Sta pril 2016, w eriod ender n behalf of	arements) F n the Stock w.indoguffin ed in accorn n accounting andards) (Å vith a transi d 31st Dece the Board (Gulf Industr	tegulations, : Exchange d.com dance with Standards) mendment) tion date of mber, 2016 of Directors

8		Quarte	r ended	Year	ended	
S No,	Particulars	31.03.2025 (Audited)	31.03.2024 (Audited)	31.03.2025 (Audited)	31.03.2024 (Audited)	
1	Total Income from operations (net)	448.99	67.26	1900.38	907.23	
2	Net Profit for the period (before tax, Exceptional and Extra ordinary items)	366.59	-9.56	1558.20	631.74	
3	Net Profit for the period before tax (after Exceptional and Extra ordinary items)	366.59	-9.56	1558.20	631.74	
4	Net Profit for the period after tax (after Exceptional and Extra ordinary items)	339,45	-184.02	1251.62	307.28	
5	Total comprehensive Income	-25302.59	8475.11	18011.46	8966.41	
6	Paid up Equity Share Capital (Face value of Share Rs. 10/- each)	2505.55	2505.55	2505.55	2505.55	
7	Reserves (excluding Revalution Reserves) as shown in the Audited Balance sheet of the previous year			121687.80	103676.33	
8	Earning per Share (after extraordinary items) (of Rs. 10/- each) (not annualised)	e-stimm		2000-00	2.222	
1011	Basic in ₹ per share	1.35	-0.73	5.00	1.23	
_	Diluted in ₹ per share	1.35	-0.73	5.00	1.23	

Segment reporting is not applicable as the company activity falls within a single business segment. 4. Previous period's figures have been regrouped/rearranged wherever necessary. 5. The above results are available on the website of Bombay Stock Exchange at www.bseindia.com & on the company website at www.panaficindustrialsltd.in.

> For and on behalf of Board of Directors of Panafic Industrials Limited

> > Sarita Gupta Managing Director DIN: 00113099

Place : New Delhi Date : 30.05.2025

SHIVALIK SMALL FINANCE BANK LTD. Shivalik Small Finance Bank Ltd.501, Salcon Aurum, Jasola district Centre, New Delhi South Delhi, Delhi -110025 & Branch Office at Shivalik Small Finance Bank Ltd, Meerut, Uttar Pradesh.

PUBLIC NOTICE FOR AUCTION CUM SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES

Appendix - IV-A [See Proviso to rule 8 (6)]

Open Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described immovable property mortgaged/charged to the Secured Creditor, the constructive possession of which has been taken by the Authorised Officer of Shivalik Small Finance Bank Ltd., the Secured Creditor, will be sold "As is Where is". As is What is" and Whatever there is' on 18-06-2025 for recovery of Rs.6,06,000/- (Rupees Six Lakh Six Thousand Only) As on 12-04-2024 plus interest & charges thereafter due to the Shivalik Small Finance Bank Ltd. secured creditor from 1. Mr. Mohd. Yamin S/o Mr. Yasin (Borrower/ Mortgagor) R/o Incholi Garden, Near Lotus Marriage Farm Lisari Road, Meerut City Uttar Pradesh 250002, 2. Mrs. Salma W/o Mr. Mohd. Yamin (Guarantor) R/o Incholi Garden, Near Lotus Marriage Farm Lisari Road, Meerut City Uttar Pradesh 250002, 3. Mr. Mohd, Babar S/o Mohd, Yaseen (Guarantor) R/o Incholi Garden, Near Lotus Marriage Farm Lisari Road, Meerut City Uttar Pradesh 250002.

The reserve price will be Rs.9,36,900/- (Rupees Nine Lakhs Thirty Six Thousand Nine Hundred Only) and the earnest money deposit will be 10% of Bid Amount i.e., Rs. 93,690/- (Rupees Ninety Three Thousand Six Hundred Ninety Only) the latter amount to be deposited with the Bank on or before 17th June 2025 by 5 PM, particulars of which are given below: -

Name of the Borrower(s) / Guarantor(s)	Demand Notice Date and Outstanding Amount as per Demand Notice	Description of the Immovable properties	Reserve Price	Earnest Money Deposit (EMD)
1.Mr. Mohd. Yamin S/o Mr. Yasin (Borrower/ Mortgagor) R/o Incholi Garden, Near Lotus Marriage Farm Lisari Road, Meerut City Uttar Pradesh 250002 2.Mrs. Salma W/o Mr. Mohd. Yamin (Guarantor) R/o Incholi Garden, Near Lotus Marriage Farm Lisari Road, Meerut City Uttar Pradesh 250002 3.Mr. Mohd. Babar S/o Mohd. Yaseen (Guarantor) R/o Incholi Garden, Near Lotus Marriage Farm Lisari Road, Meerut City Uttar Pradesh 250002 Loan Account No. (100841008108, 100841510586)	Rs. 6,06,000/- (Rupees Six Lakh Six Thousand Only)	All the piece and parcel of the immovable properties: Self Occupied Residential Property, measuring an area of 41.80 Sq. Mtrs, Situated at Plot No. 37 & 38 Kharsa No. 2762 Incholi Garden Colony, Kasba Meerut Near Village Lisari Tehsil and District Meerut. Registered in revenue records of Bahi No.1, Jild No.8758, Page No. 267-284 Serial No. 4609 Dated 06-07-2017. In the name of Mr. Mohd. Yamin	Rs. 9,36,900/- (Rupees Nine Lakhs Thirty Six Thousand Nine Hundred Only)	10% of Reserve Price i.e Rs. 93,690/- (Rupees Ninety Three Thousand Six Hundred Ninety Only)

Auction Date and time of opening of Bid:- 18th June 2025 from 10:00-12:00 hrs

Last Date for Submission of Offers / EMD:- 17th June 2025 till 5.00 pm.

For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided in Shivalik Small Finance Bank, the Secured Creditor's website https://shivalikbank.com/auction of bank properties.php

Important Terms & Conditions of Sale:

- (1) The property is being sold on "as is where is, whatever there and without recourse basis as such sale is without any warranties and indemnities.
- (2) The property/documents can be inspected on the above given date and time with the Authorised Officer of the Bank.
- (3) Bid document/Form containing all the general terms and conditions of sale can be obtained from Authorised Officer on any working day during office hours at Bank's Branch Office mentioned herein above. The intending bidders should send their sealed bids on the prescribed Bid Form to Be Authorised Officer of Bank.
- (4) Bid to be submitted in sealed envelope mentioning the Bid for Auction property and accompanied with EMD (being 10% of the Bid Amount) by Demand Draft drawn in favour of "Shivalik Small Finance Bank Ltd", payable Meerut/Noida at on or before 17th June 2025 till 5:00 p.m. at the above-mentioned Branch office of Bank. Bids that are not filled up or Bids received beyond last date and time will be considered as invalid Bid and shall accordingly be rejected. No interest shall be paid on the EMD. Once the bid is submitted by the Bidder, the same cannot be withdrawn.
- (5) The sealed bids will be opened on 18th June 2025 at 10:00 hrs 12:00 hrs at the above-mentioned Branch Office of Bank in the presence of the bidders. present at that time and thereafter the eligible bidders may be given an opportunity at the discretion of the Authorised officer to participate in inter-se bidding to enhance the offer price.
- (6) The bid price to be submitted shall be above the Reserve Price and the bidder shall further improve their offer in multiple of Rs.50,000/-. The property will not be sold below the Reserve Price set by the Authorised Officer.
-) The successful bidder is required to deposit 25% of the sale price (inclusive of EMD) immediately not later than next working day by Demand Draft drawn in favour of Shivalik Small Finance Bank Ltd, payable at Meerut/Noida and the balance amount of sale price shall be paid by the successful bidder within 15 days from the date of confirmation of sale by Bank. The EMD as well as Sale Price paid by the interested bidders shall carry no interest. The deposit of EMD or 25%, whatever the case may be, shall be forfeited by the Bank, if the successful bidder fails to adhere to the terms of sale or commits any default. (8) Bank does not take any responsibility to procure any permission/NOC from any Authority or under any other law in force in respect of property offered or any other dues i.e., outstanding water/electric dues, property tax, Municipal/ Panchayat taxes or other charges if any. (9) The successful bidder shall bear all expenses including pending dues of any Development Authority if any/taxes/utility bills etc. to Municipal Corporation

Narain, District Bijnor, U.P.

Whereas you the was ordered by the Presiding Officer of DEBTS RECOVERY TRIBUNAL DEHRADUN who had issued the Recovery Certificate dated 10/01/2018 in TA/609/2018 to pay to the Applicant Bank(s)/Financial Institution(s) Bank of Baroda, the sum of Rs. 25,24,18,247.41 (Rupees Twenty Five Crores Twenty Four Lakhs Eighteen Thousands Two Hundred Forty Seven And Paise Forty One Only) along with pendente-lite and future interest @ 11.75% per annum with monthly rests from the date of filing of the O.A being 22.02.2015 till the date of realization and costs of Rs 2,64,005 and whereas the said has not been paid, the undersigned has ordered the sale of undermentioned immovable/ Immoveable property.

You are hereby informed that the 06.06.2025 at 10.30 A.M. has been fixed for drawing up the proclamation of sale and settling the terms thereof. You are requested to bring to the notice of the undersigned any encumbrances, charges, claims or liabilities attached to the said properties or any portion thereof.

Specification of property

Property No. I- Factory Land & Building of Rama Agro & Food Products, at Khasra no, 489 M measuring 0.5070 hectares at Village Raja Rampur Pratap, Tehsil Najibabad, District Bijnor UP owned by Sri Bali Ram (defendant no.2).

Property No. II- Commercial land of Lala Dhaniram Saraswati Vidhya Mandir Inter College measuring 0.346 Hec. Belonging to Mr. Baliram urf Vinod Kumar S/o Late Shri Dhani Ram situated at Khasra no. 1148, Kiratpur, Najibabad, District Bijnor UP. Purchased through sale deed dated 21.10.1975 executed by Sri Bishartulla urf Bashartulla S/o Rahamatulla in favour of Sri Bali Ram urf Vinod Kumar registered in Book No.I Jild No. 4198 pages 367/372 at serial no. 7420 dated 04.07.2009 in the office of SR Najibabad District Bijnor.

Property No. III- Residential Land & Building situated at Khasra no.979 measuring 944.816 sq. metres out of One Bigha two biswa at Mohalla Chauhanan Station Road, Kiratpur Tehsil Najbabad, District Bijnor purchased through sale deed dated 30.06.1975 registered in Book No.I Jild No.584 on pages 241 to 261 at serial no.1290 dated 30.09.1975 in the SR Najibabad District Bijnor. One half share measuring 944.816 sq. metres was apportioned to Smt Kusumlata wife of Sri Bali Ram as per decree dated 08.11.2006 passed in OS No. 441/2006 titled Vipin Kumar Goel versus Arun Kumar Goel & others by the Court of Civil Judge (Senior Division) Bijnor.

Property No. IV- Land & Building measuring 4554 Sq. Mtrs at khasra no. 1145 Kiratpur Tehsil Najibabad District Bijnor UP purchased through sale deed dated 14.05.1984 executed by Sri Ghafoor alias Abdul Ghaffar son of Sri Jamaluddin in favour of Sri Vipin Kumar son of Lala Dhani Ram registered in Book No.1 Jild no.799 page 384 to 385 at serial no.1565 dated 23.07.1984 in the SR Najibabad District Bijnor.

Property No. V- Non Agricultural land measuring 0.910 Hect. Situated at khasra no.489M, Village Rajarampur Pratap Tehsil Najibabad District Bijnor purchased through sale deed dated 18.10.1986 executed by Sri Mahesh Chand Agarwal son of Lala Tula Ram in favour of Durga Khandsari Udyog through it's proprietor Sri Bali Ram son Lala Dhani Ram, duly registered in Book No.1 Jild No.860 page 140 to 140 at serial no. 3189 dated 18.10.1986 in the office of SR Najibabad District Bijnor.

Given under my hand and the seal of the Tribunal, on this date: 02.05.2025.

Recovery Officer DEBTS RECOVERY TRIBUNAL DEHRADUN

Notes:

The above financial results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles laid down in Ind AS prescribed under Section 133 offhe Companies Act, 2013, and the other accounting principles generally accepted in India.

- The figure of the quarter ended 31 March, 2025 and 31 March 2024, are the balancing figures between the audited figures in respct of the full financial year and the published year to date unaudited figures upto the third guarter of the year ended 31 March, 2025 and 31 March 2024 financial year and the published year to date unaudited figures upto the third quarter of the year ended 31 March. 2025 and 31 March 2024
- The above financial results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their meeting held on May 30, 2025. The audit of financial results for the quarter and year ended March 31, 2025 as required under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, has been completed by the Statutory Auditors and they have issued an unmodified report on the aforesaid results.
- The figures of the previous periods have been re-grouped/re-classified, wherever necessary to conform to the current year's classification.



- or any other authority/agency and fees payable for stamp duty/registration fee etc. for registration of the 'Sale Certificate'.
- (10) The Authorised Officer reserves the absolute right and discretion to accept or reject any or all the offers/bids or adjourn/cancel the sale without assigning any reason or modify any terms of sale without any prior notice.

(11) Bids once made shall not be cancelled or withdrawn.

- (12) To the best of its knowledge and information, the Bank is not aware of any encumbrances on the property to be sold except of Bank. Interested parties should make their own assessment of the property to their satisfaction. Bank does not in any way guarantee or makes any representation about the fitness/title of the aforesaid property. For any other information, the Authorised Officer shall not be held responsible for any charge, lien, encumbrances, property tax or any other dues to the Government or anybody in respect to the aforesaid property. The notice is hereby given to the Borrower (s) / Mortgager(s)/ Guarantor(s), to remain present personally at the time of sale and they can bring the intending buyers/purchasers for purchasing the immovable property as described herein above, as per the particulars of Terms and Conditions of Sale.
- (13) The immovable property will be sold to the highest bidder. However, the undersigned reserves the absolute discretion to allow inter se bidding, if deemed. necessary.

(14) Bank is not responsible for any liabilities upon the property which is not in the knowledge of the Bank.

(15) The Borrower (s) / Mortgager(s) / Guarantor(s) are hereby given 15 DAYS SALE NOTICE OF IMMOVABLE SECURED ASSETS UNDER RULES 8(6) read with 9(1) OF THE SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002 published in Hindi & English Edition in Newspaper, to discharge the liability in full and pay the dues as mentioned above along with up-to-date interest and expenses within Fifteen days from the date of this notice failing. which the Secured Asset will be sold as per the terms and conditions mentioned above. In case there is any discrepancy between the publications of sale notice in English and Vernacular newspaper, then in such case the English newspaper will supersede the vernacular newspaper and it shall be considered as the final copy, thus removing the ambiguity. If the borrower/guarantors/mortgagers pay the amount due to Bank, in full before the date of sale, auction is liable to be stopped. However, in such cases, Further interest will be charged as applicable, as per the Loan documents on the amount. outstanding in the notice and incidental expenses, costs, etc., is due and payable till its realization.

(16) The decision of the authorized officer is final binding and un-questionable. All bidders who submitted the bid shall be deemed to have read and understood the terms and condition of auction sale and be bound by them.

For details, help, procedure and biding prospective bidders may contact. Mr. Jagbir giri Contact No.9045002318.

New Delhi

- 1. Please note that the secured creditor, the Bank is going to issue sale notice to all the Borrower/Co-Borrowers/Guarantors/Mortgagors by POST by their addresses. In case, the same is not received by any of the parties, then this publication of sale notice may be treated as substituted mode of service.
- 2. The Borrower/Co-Borrowers/Guarantors/Mortgagors are also hereby informed that he/they must take delivery of their household effects, lying inside the above premises/under the custody of the Bank, if any within 15 days of this publication, with prior permission, failing which the Bank shall have no liability/responsibility to the same and will dispose of at the Borrower/Co-Borrowers/Guarantors/Mortgagors risk and adjust the sale proceed towards dues If the Auction fails due to any reasons whatsoever, the Company would at liberty to sell the above mortgaged properties through private treaty as per provisions mandated under SARFAESI Act, 2002.

Date: 28-05-2025 Place: Noida

Authorised Officer, Shivalik Small Finance Bank Ltd.





epaper.financialexpress.com

Rajesh Goenka

DIN:00298227

Sd/-

For SMC Credits Limited







जनसता

(के लाख में

इंडो गल्फ इंडस्टीज लिमिटेड CIN: L7499DL1981PLC011425

पंजीवृत्त आर्थालय 4257/11, द्वितीय तल, नोंद्र भयन, 1, अंमानी तेव, दरिवालंज, नई दिल्ली-116663 benete: www.indegulfind.com, fire igilinvestorgrievancesit.rediffmail.com 31/03/2025 को समझ हिमाडी और वर्ष के लिए अकेशित स्टेंटतालेन विशेष परिवामी का सार मेंथी (सूचीयन दांपिल एवं प्रयादन अमेक्षा) विनिधनन, 2015 के विनियम 48(1)(थी) (राजि लाख सपर्व में)

क्र. स	िध्वरण	31,05,2025 को समाज तिमाडी (अफेशित)	31.12.3024 को राषाप्त सिमाही (अमंकेक्षित)	.51.03.2024 को समझ किमादी (अक्रिसिन)	31.03.2025 स्रो समास सर्व (अफ्रेडिन)	31.03.3024 को जन्म वर्ष (अव्हेग्रिज)
1)	प्रचालन से कुल आप	7,136.66	6,111.92	5,510.25	24,701.52	17,924,53
2)	अवधि को सुद्ध लाभ/(हानि) (कर और असाधारण मदी से पहले)	(36.19)	302.37	9.11	904.48	226.10
3)	कर से फहते अवधि का शुद्ध लाग/(हानि) (जसाधारण मदी के बाद)	(36.19)	302.37	9.11	904.48	226.10
4)	अवधि का शुद्ध लाभ/(हानि) (का के बाद) (असाधारण गरों के बाद)	(19.19)	226,27	83.48	653.58	147.78
5)	अवधि के लिए कुल व्यापक आप (आवधि के लिए लाभ/(हानि) (का के बाद) और अन्य व्यापत्र अहप (कर के थाद) शस्त्रिल)	(19.19)	226.27	83.48	653.58	147.78
6)	इक्विटी सेपर पूंजी	95.67	95.67	95.67	95.67	95.67
7)	आरक्षित (पिछले वर्ष को अफ्रेलिल तुलन पत्र में दर्शाए गए पुनर्मूल्याकन आरक्षित को छोड़कर)	-			2=	-
8)	प्रति शेगर आय (रु. 1/- प्रत्येक) (तिमाही आंकड़ों के लिए वार्षिक नहीं): अ) मूल (रु.) ब) तरल (रु.)	(0.20) (0.20)	2.37 2.37	0.87 0.87	6.83 6.83	

रिप्यणियाः

1) उपरोक्त सेची (सुचीयन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के पिनियमन 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजी में दाखिल वार्थिक वितीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक सार है। वार्षिक वितीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट वानी www.bscindia.com और कंपनी को वेबसाइट पानी www.indogulfind.com पर उपलब्ध है।

कंपनी के रदेंडअलोन वित्तीय परिणाम भारतीय लेखा मालक (इंड एएस) के अनुसार तैयार किए गए हैं, जो कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के तहत अधिसंधित किए गए हैं, जैसा कि कंपनी (भारतीय सेखा मानक) (संशोधन) नियम, 2016 द्वारा संशोधित किया गया है। कंपनी में 1 अप्रैल 2016 से इंड एट्स अपनाय है, जिसमें संक्रमण तिथि 1 अप्रैल, 2015 है और वदनुसार ये परिणाम (31 दिखंबर, 2016 को समाप्त अवश्वि संहित) इंड एएस 101 के अनुस्तर प्रस्तुत किए गए है। इंदी गल्फ इंदरटीज निषिटेद के निर्देशक मंदल की ओर से और उसके लिए

	राजेल जैन
स्थानः देहरादून	सिदेशक,
विनांक: 30 मई, 2025	डीआईएन: 01200520

डिवाइन पावर एनर्जी लिभिटेड

(पूर्व में पीडीआरवी एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) सीआईएनः L31300DL2001PLC112176, पंजीकृत कार्यालयः युनिट नंबर कार्यालय, प्रथम तल, सीएससी-II, बी-ब्लॉक, सरजमल विहार, दिल्ली-110092 ईमेलः info@dpel.in] वेबसाइटः www.dpel.in

ईजीएम की सूचना

सदस्यों को सुचित किया जाता है कि डिवाइन पावर एनर्जी लिमिटेड के सदस्यों की असाधारण आम बैठक (ईजीएम) सोमवार, 23 जून, 2025 को शाम 04.00 बजे,वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो–विजुअल माध्यम ('ओएवीएम')सुविधा के जरिए निर्धारित स्थल यानी कंपनी के पंजीकृत कार्यालय यूनिट नंबर ऑफिस, प्रथम तल, सीएससी–II, बी–ब्लॉक, सूरजमल विहार, दिल्ली–110092 में आयोजित की जाएगी। एमसीए परिपत्रों के अनुसार कंपनी ने 29 मई, 2025 की ईजीएम की सूचना शुक्रवार 30 मई, 2025 को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन सदस्यों को भेजने का काम पूरा कर लिया है, जिनके ईमेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकृत हैं। यह सूचना कंपनी की वेबसाइट यानी www.dpel.in और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, यानी **एनएसई लिमिटेड**, www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है और सेंटल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (सीडीएसएल) (रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने वाली एजेंसी) की वेबसाइट यानी www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है।

सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है किः

i) नोटिस में निर्धारित कार्य रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से किया जाएगा, ii) रिमोट ई—वोटिंग शुक्रवार, 20 जून, 2025 (सुबह 9.00 बजे) (आईएसटी) से शुरू होगी। iii) रिमोट ई–वोटिंग रविवार, 22 जून, 2025 (शाम 5.00 बजे) (आईएसटी) को समाप्त होगी। iv) रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से मतदान करने की पात्रता निर्धारित करने की कट–ऑफ तिथि सोमवार, 16 जून, 2025 है।

v) उपरोक्त अवधि की समाप्ति पर सीडीएसएल द्वारा ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। एक बार वोट डालने के बाद, सदस्यों को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

vi) कोई भी व्यक्ति, जो कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और नोटिस भेजे जाने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है,एवं कट—ऑफ तारीख यानी सोमवार, 16 जून, 2025 को शेयर रखता है, वह helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है और इस नोटिस का कोई भी प्राप्तकर्ता जिसके पास कट–ऑफ तारीख तक कोई वोटिंग अधिकार नहीं है, उसे इसे केवल सचना के रूप में लेना चाहिए।

अपप) सदस्यों के लिए ई–वोटिंग की प्रक्रिया के निर्देश नोटिस में दिए गए हैं फिर भी यदि शेयरधारकों / निवेशकों के पास ई—वोटिंग के संबंध में कोई प्रश्न हैं, तो आप हमें helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल कर सकते हैं या हमें 180021 09911 पर कॉल कर सकते हैं।

कंपनी के निदेशक मंडल ने ई—वोटिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांचने के लिए मेसर्स समित बजाज एंड एसोसिएट्स, अभ्यासरत कंपनी सचिव को जांचकर्ता नियुक्त किया है। ईजीएम में ई–वोटिंग का परिणाम कंपनी की वेबसाइट www.dpel.in, स्टॉक एक्सचेंज (यानी एनएसई) की वेबसाइट www.nseindia.com और ई–वोटिंग एजेंसी की वेबसाइट www.evotingindia.com पर प्रदर्शित किया जाएगा।

कृते डिवाइन पावर एनर्जी लिमिटेड (पूर्व में पीडीआरवी एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) हस्ता ./-दिनांकः 31.05.2025 स्वाति बंसल कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

ASPIRE • INNOVATE • ACHIEVE

स्थानः दिल्ली

हरता.

CIN: L27109UP1963PLC002931

Registered Office: Advanced Manufacturing & Technology Centre, NH-25A, Sarai Sahjadi, Lucknow, Uttar Pradesh - 227101, India Ph: +91 522 7111017 Fax: +91 522 7111020 Web: www.ptcil.com email: ptc@ptcil.com

Audited (Standalone & Consolidated) Financial Results of the Company for the Quarter and Year ended on March 31, 2025

In compliance with Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Reguirements) Regulation, 2015 (the "Listing



क्रेनेक्स लिमिटेड

पंजीकत कार्यालय: 9, दीहीए मार्केट, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-110016 कॉपोरेंट कार्वालय:- 57/1, औद्योगिक क्षेत्र, साइट IV, साहिबाबाद (उ.प्र.)-201010 सीआईएन: L74899DL1973PLC006503 वेबसाइट: http://www.cranexltd.com, ई-मेल: cranexl@yahoo.com, 31 मार्च, 2025 को समाप्त तिमाही तथा थिन वर्ष के लिए क्रेनेक्स सिमिटेड के लेखापरीक्षित स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय परिणामों का सारांश

विवरण			स्टैण्डएलोन			1	समेकित				
	83	समाप्त तिमाई		समाप	न वर्ष		समाप्त तिमाई	12 Ü	समाप्त	। वर्ष	
	31.03.2025 (लेखावरीक्षिन)	३१.१२.३०२४ (अलेखाणीवित)	31.03.2024 (संख्यपरीक्षित)	31,03,2025 (त्तेखापरीक्षित)	31.43.2024 (लेखायनेक्षिन)	३१.०३.२०२५ (लेखापरीक्षित)	31.12.2024 (अलेखार्कीक्षित)	31.03.2024 (लेखायडीश्वित)	9109,2025 (सेखापरीक्षित)	३१.८३.२०२४ (लेखाणीदिव)	
प्रचालनों से कुल आय	1854.55	1098.73	2157.12	5196.36	6312.58	1854.55	1098.73	2157.12	5196.36	6312.58	
अवधि हेनु निवल लाभ/(हानि) (कर, अपयादित तथा/अथया असाधारण मदौ से पूर्व)	125.8	31.18	113.53	251.54	216.83	125.8	31.18	113.54	251.55	216.83	
कर पूर्व अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (अफ्वादित लघा/अचवा असामारण मदौं के पश्चात)	125.8	31.18	113.53	251.54	216.83	125.94	31.1	113.44	251.55	214.79	
कर पश्चात अवधि हेतु निवल लाभ (हानि) (अपचादित लघा/अधवा असाधारण मदौ के पश्चात)	95.64	8.94	87.61	194.62	151.88	95.78	8.86	87.52	194.64	149.84	
एसोसिएट के लाभ/(हानि) में हिस्सा	2.6			1.0	-	0.14	-0.08	-0.1		-2.04	
अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु लाभ/(हानि) (कर पश्चात) तथा अन्य व्यापक आय (कर पश्चात) रहीत]	96.34	5.98	86.19	193.9	152.35	96.48	5.9	86.09	193.9	150.31	
इक्विटी शेयर पूँजी (मात्रा में)	65,70,000	6000000	60,00,000	65,70,000	60,00,000	65,70,000	6000000	60,00,000	65,70,000	60,00,000	
आय प्रति शेयर (इंपीएस) (रु. १०/- प्रत्येक के) (सतव एवं असतत प्रचालनों हेतु) 1. बेसिक : 2. ढाइल्यूटेड:	1.58	0.15	1.46 1.46	3.21 2.35	2.53	1.58	0.15	1.46 1.46	3.21 2.35	2.49	

1, उपरोक्त सेची (सचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों में दाखिल 31 मार्च, 2025 को समाप्त तिमाही तथा विचीय वार्ष के लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक अंश है। 31 मार्च, 2025 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष के वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंजों की चेबसाइट (www.bseindia.com) और कंपनी की वेबसाइट (www.cranexitd.com) पर उपलब्ध है।

2, 31 मार्च, 2025 को समाप्त तिमाही तथा वित्त वर्ष के लिए उपरोक्त लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों की लेखापरीक्षा समिति हारा समीक्षा की गई है और 30 मई, 2025 को आयोजित अपनी बैठक में निदेशक मंडल डारा अनुमोदित किया गया है।

3. कंपनी ने 1 अप्रैल, 2017 से कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) को उसके अंतर्गत प्रासगिक नियमों के साथ अपनाया है और तदनुसार ये वित्तीय परिणाम कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के तहत अधिसुचित इंड-एएस, जिसे कंपनी (भारतीय लेखा मानक) (संशोधन) नियम, 2016 हारा संशोधित, के अनुसार तैयार किए गए हैं।

10/21-0-22-0-1
39年,是4日上



स्थानः गाजियाबाद दिनांक: 30 मई, 2025

RAGHUNATH INTERNATIONAL LIMITED CIN No.: L52312UP1994PLC022559

Registered Office : 8/226, Second Floor, SGM Plaza, Arya Nagar, Kanpur UP 208002 Tel. No.: 011-23852583, Fax No.: 011-23852666

Website: www.raghunathintlimited.in, E-mail: rgc.secretarial@rediffmail.com

EXTRACT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR QUARTER AND YEAR ENDED ON 31ST MARCH, 2025

		1.1.9	STAND	DALONE			CONSOL	(Rs. in lacs)	
S. No.		Quarter ended 31.03.2025	ended	ended	Financial Year Ended 31.03.2025	Quarter ended 31.03.2025	Quarter ended 31.12.2024	ended	Financial Year Ended
_		Audited	Unaudited	100 100 100 100 LOUGH	Audited	Audited	Unaudited	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	111111111111111111111111111111111111111
1,	Total income from operations (net)	с. т	28.000		28.000	-	28.000	1	28.000
2.	Net Profit/(Loss) from ordinary activities after tax	4.849	15.609	7.545	228.295	4.849	15.609	7.545	228.295
3.	Net Profit/(Loss) after tax (after Extraordinary items)	4.849	15.609	7.545	228.295	4.849	15.609	7.545	228.295
4.	Minority Interest (Share of profit/(loss) of associates)*	55 55	10		15	17.299	4.935	(7.451)	24.539
	Net Profit/(Loss) after tax and minority interest*	4.849	15.609	7.545	228.295	22.148	20.544	0.094	252.834
6.	Other Comprehensive income		112200000000		1/104 (K6/304 P		1		1177087COBS M
7.	Total Comprehensive income for the period	4.849	15.609	7.545	228.295	22.148	20.544	0.094	252.834
8.	Equity Share Capital	50.002	50.002	50.002	50.002	50.002	50.002	50.002	50.002
	Reserves (excluding Revaluation Reserves as shown in the Balance Sheet of previous year)	t 3	73.	51	686.700	38			1,117.308
10.	Earning Per Share (of ₹10/- each)	/	'	1 /				1	
	Basic :	-			漫	•			8
/	Diluted :	0.097	0.312	0.151	4.566	0.443	0.411	0.002	5.056

Regulations"), the Board of Directors of PTC Industries Limited in its meeting held on Friday, the May 30, 2025 approved Audited (Standalone & Consolidated) Financial Results of the Company for the guarter and year ended at March 31, 2025.

The Audited (Standalone & Consolidated) Financial Results along with the Audit Report by S.N. Dhawan & CO LLP are available on the website of the company at www.ptcil.com and also on the website of Stock Exchanges i.e BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively.

In compliance with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, we hereby notify you that the same can also be accessed by scanning the following Quick Response (QR) Code:



For PTC Industries Limited,

Date : 30.05.2025

Place : Lucknow

एमरजेंट इंडस्ट्रियल सोल्यूशन्स लिमिटेड सीआईएन : एल80902डीएल1983पीएलसी209722 पंजीकृत कार्यालय : 8-बी, 'सागर', 6, तिलक मार्ग, नई दिल्ली-110 001

पान निपानी का को के प्रकृत पूर्व उपरेक्त शत्मेलपारीशित विनीम प्रतिणामें के विवरण

दूरभाष : (91) (11) 2378 2022, फैक्स : (91) (11) 2378 2806, ईमेल : cs@somanigroup.com, वेबसाइट : www.eesl.in

	31 मार्च 2025 का समाप्त कि	तमाहा तथा	वष क एक	त्र एव समा	कत अलख	पराक्षत वि	त्ताय पारण				
		<u>N:</u>						(रु. लाख	में, अंशों की	संख्या एवं ईपी	एस छोड़कर)
एकल समेकित											IVG वर्ष 31 मार्च 2024 लेखा परीक्षित 35,907.27 243.19 243.19 171.32 173.03 456.90 1,943.13 3.75 3.75 3.75
	विवरण	समाप्त तिमाही		समाप्त वर्ष		समाप्त तिमाही			समाप्त वर्ष		
		31 मार्च 2025 लेखा परीक्षित	31 दिसंबर 2024 अलेखापरीक्षित	31 मार्च 2024	31 मार्च 2025 लेखा परीक्षित	31 मार्च 2024 लेखा परीक्षित	31 मार्च 2025 लेखा परीक्षित	31 दिसंबर 2024 अलेखापरीक्षित	31 मार्च 2024	31 मार्च 2025	
				लेखा परीक्षित					लेखा परीक्षित	लेखा परीक्षित	लेखा परीक्षित
1	कुल राजस्व	4,756.98	11,068.53	17,431.53	79,877.63	35,918.77	4,758.59	11,061.01	17,428.69	79,865.77	35,907.27
2	अवधि हेतु लाभ⁄हानि (कर, आपवादिक एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	(141.33)	(35.69)	57.54	533.09	255.48	(140.08)	(43.30)	54.32	520.43	243,19
3	कर पूर्व अवधि हेतु लाभ⁄हानि (आपवादिक एवं/अथवा असाधारण मदों के पश्चात्)	(141.33)	(35.69)	57.54	533.09	255.48	(140.08)	(43.30)	54.32	520.43	243.19
4	कर पश्चात् अवधि हेतु लाभ() / हानि(–) (आपवादिक एवं / अथवा असाधारण मदों के पश्चात्)	(109.35)	(26.05)	43.72	396.72	192.51	(107.63)	(33.14)	41.10	377.70	171.32
5	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु लाभ/(हानि) (कर पश्चात्) तथा अन्य व्यापक आय (कर पश्चात्) से समाविष्ट)	(109.95)	(26.05)	45.43	396.12	194.22	(108.23)	(33.14)	42.81	377.10	173.03
6	प्रदत्त समता अंश पूंजी (रु. 10 /— प्रति अंश का अंकित मूल्य)	456.90	456.90	456.90	456.90	456.90	456.90	456.90	456.90	456.90	456.90
7	पुनर्मूल्याँकन आरक्षितियाँ छोड़कर अन्य समतायें, पूर्ववर्ती लेखाँकन वर्ष के तुलन–पत्र के अनुसार	(.)(0)	85	3	2,509.92	2,113.80	*2		31	2,320.23	1,943.13
8	आय प्रति अंश (असाधारण मदों से पूर्व) (अवार्षिकीकृत)	11-12-000	0.000			10000					
	(क) मूलभूत (ख) तरलीकृत	(2.39) (2.39)	(0.57) (0.57)	0.96	8.68 8.68	4.21 4.21	(2.36) (2.36)	(0.73) (0.73)	0.90	8.27 8.27	
9	आय प्रति अंश (असाधारण मदों के पश्चात्) (अवार्षिकीकृत)						and the state of t	Sector Contraction			
	(क) मूलभूत (ख) तरलीकृत	(2.39) (2.39)	(0.57) (0.57)	0.96 0.96	8.68 8.68	4.21 4.21	(2.36) (2.36)	(0.73) (0.73)	0.90 0.90	8.27 8.27	3.75 3.75

टिप्पणी : उपरोक्त साराँश, सेबी (सुचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकतायें) विनियमावली 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज के पास फाइलबद्ध 31 मार्च 2025 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष के वित्तीय परिणामों के विस्तुत प्रारूप का एक साराँश है। एकल तथा समेकित वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट अर्थात (www.bseindia.com) पर और कंपनी की वेबसाइट अर्थात (www.eesl.in) पर उपलब्ध है। मादेशानुसार स लिमिटेड

डीआईएन : 00011233
तरुण सोमानी (अध्यक्ष)
तरुण सोमानी
हस्ता./—
बाड के आदशानुसार कृते एमरजेंट इंडस्ट्रियल सोल्यूशन्स लिमिटेड हस्ता./—
बाड के आदशानुसार

पैनाफिक इन्डस्ट्रियल्स लिमिटेड पंजीकृत कार्यालयः 23, द्वितीय मंजिल, नार्थ वेस्ट एवेन्यू, क्लब रोड, वेस्ट पंजाबी बाग, नई दिल्ली-110026 CIN: L45202DL1985PLC019746 वेबसाइट: www.panaficindustrialsItd.com ई–मेल: panafic.industrials@gmail.com दूरभाष: 011-25223461

31 मार्च, 2025 को समाप्त तिमाही एवं वार्षिक स्टैन्डअलोन के अंकेक्षित वित्तीय परिणाम

Note : The above is an extract of the details format of the Standalone and Consolidated Financial Results for Quarter and Year ended on 31st March. 2025 filed with Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015. The full format of the Standalone and Consolidated Financial Results for Quarter and Year ended on 31st March, 2025 are available on the Stock Exchange Website (www.bseindia.com) and on the Company's website (raghunathintlimited.in).

By the Order of the Board

For Raghunath International Limited G.N Choudhary Director DIN 00012883

क्रेनेक्स लिमिटेड के बोर्ड की ओर से

इस्ता./ चैतन्य अग्रयाल पूर्णकालिक निदेशक

डीआईएन: 05108809



Place: New Delhi Date: 30.05.2025



Registered Office : 8/226, Second Floor, SGM Plaza, Arya Nagar, Kanpur, UP 208002. Tel. No.: 011-23852583, Fax No.: 011-23852666 Website: www.rtcllimited.in, E-mail:rgc.secretarial@gmail.com

EXTRACT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR QUARTER AND YEAR ENDED ON 31ST MARCH, 2025

	PARTICULARS		STAND	ALONE			(Rs. in lacs)		
S. No.		Quarter ended 31.03.2025 Audited	Quarter ended 31.12.2024 Unaudited	Quarter ended 31.03.2024 Audited	Financial Year Ended 31.03.2025 Audited	ended	Quarter ended 31.12.2024 Unaudited	Quarter ended 31.03.2024 Audited	Financia Year Endec 31.03.2025 Auditec
1,	Total income from operations (net)	2	(5	385.830	1	E S	3	385.830	2
2.	Net Profit/(Loss) from ordinary activities after tax	14.287	20.175	194.285	68.566	14.287	20.175	194.285	165.068
3.	Net Profit/(Loss) after tax (after Extraordinary items)	14.287	20.175	194.285	68.566	14.287	20.175	194.285	68.566
4.	Minority Interest (Share of profit/(loss) of associates)*		1		3	17.209	3.824	(8.649)	28.642
5.	Net Profit/(Loss) after tax and minority interest*	14.287	20.175	194.285	68.566	31.496	23.999	185.636	97.208
6.	Other Comprehensive Income	100000000	100000	-2	10000000		2001-010-050	1791055000498	ACA4010 0002
7.	Total Comprehensive Income for the period	14.287	20.175	194.285	68.566	31.496	23.999	185.636	97.208
8.	Equity Share Capital	120.012	120.012	120.012	120.012	120.012	120.012	120.012	120.012
9.	Reserves (excluding Revaluation Reserves as shown in the Balance Sheet of previous year)			10000000 10000000 100000000	1,940.713			11.000 AU	3,135.846
10.	Earning Per Share (of ₹10/- each)								
	Basic :							10	
	Diluted :	0.119	0.168	1.619	0.571	0.262	0.200	1.547	0.810

NOTE: 1. The above is an extract of the details format of the Standalone and Consolidated Financial Results for Quarter and Year ended on 31st March. 2025 filed with Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Reguirement) Regulations, 2015. The full format of the Standalone and Consolidated Financial Results for Quarter and Year ended on 31st March, 2025 are available on the Stock Exchange Website (www.bseindia.com) and on the Company's website (www.rtcllimited.in).



RTCL Limited Ajay Jain Whole Time Director DIN: 00043349

Place: New Delhi Date: 30.05.2025

स्थान : नई दिल्ली

दिनॉंक : 30 मई 2025

epaper.jansatta.com

विवरण		समाप्त तिम	समाप्त वार्षिक		
	31-मार्च-25	31-मार्च-24	31-दिसम्बर-24	31-मार्च-25	31-मार्च-24
	अंकेक्षित	अंकेक्षित	अनअंकेक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित
संचालन से कुल आय (नेट)	24.72	19.18	13.34	65.87	67.89
कर से पहले सामान्य कार्यकलापों से नेट लाभ/(हानि) (विशिष्ट मदों से पहले)	(1.53)	(3.43)	7.15	4.17	2.97
कर से पहले सामान्य कार्यकलापों से नेट लाभ⁄(हानि) (विशिष्ट मदों के बाद)	(1.53)	(3.43)	7.15	4.17	2.97
कर के बाद सामान्य कार्यकलापों से नेट लाभ/(हानि) (विशिष्ट मदों के बाद)	(1.53)	(3.43)	7.15	2.84	2.15
कर के बाद कुल व्यापक आय एवं गैर नियंत्रित हित	(1.53)	(3.43)	7.15	2.84	2.15
चुकता इक्वीटी शेयर कैपीटल	821.25	821.25	821.25	821.25	821.25
रिजर्व रिवैल्यूवेसन रिजर्व को छोड़कर, पिछले वर्ष के अंकेक्षित तुलन पत्र के अनुसार	-	-	-	-	-
प्रति इक्वीटी शेयर आय (संचालन जारी एवं बंद करने के लिए)					
मूल	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
तरल	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00

टिप्पणीः

स्थान ः नई दिल्ली

दिनाँक : 30-05-2025

1. उपरोक्त परिणामों की लेखा परीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई और निदेशक मंडल की 30 मई, 2025 की बैठक में अनुमोदित किये गये।

2. उपरोक्त वित्तीय परिणामों को कम्पनीज अधिनियम, 2013 ("धारा") की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानक ("आईएनडी एएस") के उसके अन्तर्गत साथ में पठित जारी प्रासांगिक नियमों एवं सेबी (लिस्टिंग दायत्वों एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं), विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अनुसार तैयार किये गये ।

3. कम्पनी की गतिविधि केवल एक व्यावसाय खण्ड में आती है इसलिए कम्पनी पर खण्डवार रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

पिछली अवधि के आकड़े जहाँ पर आवश्यक हो, समूहीकृत/पूनःवर्गीाकृत किये गये हैं। 4.

5. उपरोक्त परिणाम मुम्बई स्टॉक एक्सचेन्ज की वेबसाइट www.bseindia.com एवं कम्पनी की वेबसाइट www.panaficindustrialsltd.com पर उपलब्ध हैं।



सोनल मर्कन्टाइल लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय : 385, वर्द्धमान प्लाजा, तृतीय तल, सेक्टर-3, रोहिणी, नई दिल्ली-110085, सीआईएन : L51221DL1985PLC022433, वेबसाइट : www.sonalmercantile.in, ईमेल आईडी : sonalmercantile@yahoo.in, संपर्क नं: 011.49091417 31 मार्च 2025 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष के लेखापरीक्षित समेकित एवं एकल वित्तीय परिणामों का सारौँश (रुपये लाख में, ईपीएस छोड़कर) समेकित 丣 विवरण एकल सं समाप्त वर्ष समाप्त तिमाही समाप्त वर्ष समाप्त वर्ष लेखापरीक्षित लेखापरीक्षित अलेखापरीक्षित लेखापरीक्षित लेखापरीक्षित लेखापरीक्षित अलेखापरीक्षित लेखापरीक्षित लेखापरीक्षित लेखापरीक्षित 31.03.2025 31.12.2024 31.12.2024 31.03.2024 31 03 2025 31 03 2025 31.03.2024 31.03.2024 31.03 2025 31.03.2024 1 परिचालनों से आय 856.37 822.76 1,026.42 3,529.37 3,931.61 856.37 822.76 1,026.42 3,529.37 3,931.61 2 कर एवं आपवादिक मदों से पूर्व लाभ 362.85 319,50 511.13 1,396.01 1,564.41 362.85 319.51 1,396.01 1,564.41 511.14 3 कर उपरांत लाभ तथा (आपवादिक मदों के उपरांत) 270.88 235.77 382.49 1.040.68 1,170.68 270.88 235.77 382.49 1,040.68 1,170.68 4 कुल व्यापक आय (कर उपरांत लाम/ हानि तथा कर उपरांत अन्य व्यापक आय से समाविष्ट) 300.33 235.77 382.49 1,070.13 1,170.68 1,174.90 737.61 731.75 1,174.90 4,194.01 5 प्रदत्त समता अंश पूंजी 1,473.85 1,473.85 1,473.85 1,473.85 1,473.85 1,473.85 1,473.85 1,473.85 1,473.85 1,473.85 8 आय प्रति अंग (अंकित मुल्य प्रति अंश रु. 10/- प्रत्येक) क) मूलभूत (रु. प्रति अंश) 2.04 1.60 2.60 7.06 7.94 7.09 5.61 7.10 24.50 9.50 ख) तरलीकृत (रु. प्रति अंश) 2.04 1.60 2.60 7.06 7.94 7.09 5.61 7.10 24.50 9.50 टिप्पणियाँ :

1) उपरोक्त सारींश, सेबी (एलऔडीआर) विनियमावली 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत बांबे स्टॉक एक्सचेंज के पास फाइलबद्ध 31 मार्च 2025 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष के एकल एवं समेकित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक साराँश हैं। इन विलीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप, बांबे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट : www.bse.com पर तथा कंपनी की वेबसाइट www.sonalmercantile.in पर उपलब्ध है 2) उपरोक्त परिणामों की समीक्षा, लेखापरीक्षण समिति द्वारा 30 मई 2025 को आयोजित अपनी बैठक में की गयी है तथा निदेशक मंडल ने 30 मई 2025 को आयोजित अपनी बैठक में इनका अनुमोदन किया है।

> परिणाम देखने के लिए क्युआर कोड स्कैन करें



बोर्ड की ओर से कृते सोनल मर्कन्टाइल लिमिटेड हस्ता /-विक्रम गोयल पूर्णकालिक निदेशक बीआईएन : 00381115